

**@shahjahanpurpol**

**प्रेस नोट-सराहनीय कार्य दिनांक 12.04.2021**

**\*थाना गढ़िया रंगीन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,**

**मादक पदार्थ तस्क़र विश्राम को 10 किलोग्राम अफीम के डोडे सहित किया गिरफ्तार ।\***

आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावो के दृष्टिगत श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में मादक पदार्थों की तस्क़री की रोकथाम व मादक पदार्थों में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुक्रम में एवं श्री संजीव कुमार बाजपेयी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शाहजहाँपुर के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तिलहर के निर्देशन में तथा थानाध्यक्ष गढ़िया रंगीन के कुशल नेतृत्व में थाना गढ़िया रंगीन पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली ।

दिनांक 12.04.21 की रात्रि थाना गढ़िया रंगीन की पुलिस टीम थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने व रोकथाम जुर्म जरायम, तलाश वांछित अपराधी में भ्रमणशील थी तो मुखबिर की सूचना पर समय करीब 03.30 बजे अभियुक्त विश्राम पुत्र लालाराम निवासी ग्राम नंगला देहातमाली थाना गढ़िया रंगीन जिला शाहजहाँपुर को उसके घर ग्राम नंगला देहातमाली से 10 किलोग्राम अफीम के डोडा के साथ गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना गढ़िया रंगीन पर मु0अ0सं0 118/2021 धारा 8/18 NDPS ACT बनाम अभियुक्त विश्राम पुत्र लालाराम निवासी ग्राम नंगला देहात माली थाना गढ़िया रंगीन जिला शाहजहाँपुर पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय पेशी हेतु रवाना किया जायेगा ।

### **गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण:**

1. विश्राम पुत्र लालाराम निवासी ग्राम नंगला देहात माली थाना गढ़िया रंगीन जिला शाहजहाँपुर ।

### **बरामदगी का विवरण:**

1-10 किलोग्राम अफीम के डोडा

### **पूछताछ:-**

अभियुक्त से पूछताछ में बताया कि मैं किसानों से सस्ती कीमत में डोडा खरीदकर आसपास के क्षेत्र में महँगी कीमत पर बेच देता था ।

### **पंजीकृत अभियोग का विवरण:-**

1. मु0अ0सं0 118/21 धारा 8/18 NDPS ACT थाना गढ़िया रंगीन जिला शाह0 ।

### **गिरफ्तार करने वाली टीम:-**

1. SO श्री सुन्दरलाल थाना गढ़िया रंगीन शाह0
2. SI श्री पूरनराम आर्य थाना गढ़िया रंगीन शाह0
3. का0 2315 निशान्त थाना गढ़िया रंगीन शाह0
5. का0 2171 परिक्षित थाना गढ़िया रंगीन शाह0
6. का0 1848 देवेन्द्र थाना गढ़िया रंगीन शाह0